



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक- 08.07.2021

थाना सिगरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज 315 बोर कट्टा के साथ अभियुक्त मनीष हरिजन गिरफ्तार

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर सिगरा पेट्रोल पम्प के पास से अभियुक्त मनीष हरिजन पुत्र चन्द्रमा प्रसाद निवासी D 64/38 पदमीनी होटल के पीछे हरिजन बस्ती बैंक कालोनी थाना सिगरा वाराणसी को दिनांक 08.07.21 को समय 08.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज 315 बोर कट्टा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिगरा पर मु0अ0सं0 315/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 08.07.21 को थाना सिगरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सिगरा पेट्रोल पम्प के पास एक व्यक्ति एक नाजायज 315 बोर का कट्टा लिए हुआ है और सिगरा पेट्रोल पम्प पर आटो का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर सिगरा पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़कर जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अदद नाजायज 315 बोर कट्टा बरामद हुआ बरामद हुआ।



गिफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनीष हरिजन पुत्र चन्द्रमा प्रसाद निवासी D 64/38 पदमीनी होटल के पीछे हरिजन बस्ती बैंक कालोनी थाना सिगरा वाराणसी उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद नाजायज 315 बोर कट्टा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 मो सुफियान खां थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 हरिशचन्द्र वर्मा थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 विनय कुमार सिंह थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 अर्जुन सिंह थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी